

F.D.R (2021-22)

Schedule XLV. Form N.134.

P.W.D.
RCD Road No. 14 (Laxmi Puri) to Chhatan Tola
Pawattā DIVISION
Nargashia SUB DIVISION

MEASUREMENT BOOK

667

प्रभावी अधिकारी का नाम लिखें।
वर्ष ६६७ के दौरान नुगाँची के N
एवं (कर्जी) के दौरान हुए सभी
पुराने या अनियंत्रित लोटाए
जानी वाले ग्राम यांत्र और Report
के लिए Emergent repair & restoration
of rural roads affected by Heavy
rainfall के लिए लोटा लेना।
आप

AR
11/09/2021

Executive Engineer
R.W.D. W.D. Naugachia

11/09/2021

Issued to S/o vikash Kumar
J.E- R.W.D. WORK Section Naugachia

A
11-09-2021
AE

Schedule XLV Form No. 134

NAUGACHHIA DIVISION

NAUGACHHIA SUB-DIVISION

MEASUREMENT BOOK 667

Name of Office.....

Date of first entry.....

Date of last entry.....

Name of work -1

Situation of work -

Agency by which work is executed -

Date of measurement.

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated and the commencement
of the measurement relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents or area
	No.	L.	B.	D.	
N/W -					Temporary Restoration
					Work in RCD Road No. A
					(Laxmipur) to Chhutan
					tola Parwatta
Block -					Navgachhia
Agency -					Rajesh Kumar Madhukar
Agreement No -					01F2 /2021-22
Agreement date -					07/07/2021
Authority -					E.E. RWD (W) division
					Navgachhia

Record Entry

Date - 12/09/2021

① Providing cement bag

with sand and labour

including carriage laying

filling - do

CH - 0m to 10m

$$1 \times 1.60 \text{ m} \times 0.60 \text{ m} \times 0.90 \text{ m} = 0.38 \text{ m}^3$$

$$1 \times 5.0 \text{ m} \times 0.50 \text{ m} \times 0.30 \text{ m} = 0.75 \text{ m}^3$$

CH - 452m to 458m

$$1 \times 0.80 \text{ m} \times 1.50 \text{ m} \times 0.45 \text{ m} = 0.54 \text{ m}^3$$

$$1 \times 4.20 \text{ m} \times 3.90 \text{ m} \times 0.30 \text{ m} = 4.91 \text{ m}^3$$

CH - 530m to 550m

$$1 \times 5.30 \text{ m} \times 4.90 \text{ m} \times 0.150 \text{ m} = 12.99 \text{ m}^3$$

(Continuation)

Sch. XLV- Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents or area
	No.	L.	B.	D.	
1x 1.30 m x 1.40 m x 0.90 m = 1.64 m ³					
1x 2.90 m x 0.50 m x 0.60 m = 0.87 m ³					
1x 1.00 m x 1.50 m x 0.30 m = 0.45 m ³					
CH - 645 m to 661 m					
1x 16.0 m x 0.60 m x 0.50 m = 4.80 m ³					
CH - 680 m to 700 m					
1x 1.50 m x 2.90 m x 0.30 m = 1.31 m ³					
1x 1.00 m x 0.70 m x 0.50 m = 0.35 m ³					
1x 4.70 m x 2.80 m x 0.60 m = 7.90 m ³					
1x 2.30 m x 3.10 m x 0.40 m = 2.85 m ³					
1x 2.30 m x 3.20 m x 0.30 m = 6.62 m ³					
1x 2.50 m x 2.60 m x 0.50 m = 3.25 m ³					
Qty = 49.61 m ³					

*(Signature)
12/09/2021
S.E.*

*HZ
12/09/2021
AE*

Record Entry

Date — 15/09/2021



- ① Providing cement bag
with sand and labours
including carriage
laying filling — do —

CH - 865 m to 867 m

1x 2.0 m x 1.50 m x 0.90 m = 1.20 m³

(Continuation)

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents or area				
	No.	L.	B.	D.					
	CH - 880 m to 885 m								
1 X	$4.20 \text{m} \times 3.70 \text{m} \times 0.30 \text{m} = 4.66 \text{m}^3$								
1 X	$1.90 \text{m} \times 2.10 \text{m} \times 0.50 \text{m} = 2.00 \text{m}^3$								
	CH - 900 m to 920 m								
1 X	$2.50 \text{m} \times 3.30 \text{m} \times 0.40 \text{m} = 3.30 \text{m}^3$								
1 X	$5.0 \text{m} \times 2.20 \text{m} \times 0.60 \text{m} = 6.60 \text{m}^3$								
1 X	$5.20 \text{m} \times 2.20 \text{m} \times 0.45 \text{m} = 5.15 \text{m}^3$								
					$8 \text{t}y = 23.51 \text{m}^3$				
  15/09/2021									
 A.E.									

(Continuation)

Sch. XLV-Form No. 134

(Continuation)

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents or area
	No.	L.	B.	D.	
ABSTRACT OF COST					

(1)

Providing cement

bag with sand and

labour including

carriage laying

Billing - do

Same by vide T.M.B

item-(1) & Page- $\frac{1}{2}$ $49.61 \text{ m}^3 = 1459 \text{ bags}$

1459 bags

item-(1) & Page- $\frac{2}{3}$ $23.51 \text{ m}^3 = 691 \text{ bags}$

691 bags

2150 bags @ Rs 30.70/bag Rs. 66005=

Add G.S.T @ 12% Rs. 7921=

Add L.Cess @ 1% Rs. 660=

Add S.F @ 10% on

basic rate of mines

material vide T.M.B

Page-(2) Rs. 1036=

Rs. 75622=

13104/-
S.E14-02-2022
A.E
R.W.D.W.D.Naugachia

Executive Engineer

R.W.D.W.D.Naugachia